



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1934 (श0)

(सं0 पटना 571) पटना, बृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर 2012

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक यो0स्था01/3-2/2012-4216/यो0वि0

प्रेषक,

विजय प्रकाश,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना

विषय:

योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्य प्रमंडल के लिए 228 संविदा आधारित नियत वेतन पर सृजित अराजपत्रित पदों को निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तित एवं सृजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति।

दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्य प्रमंडलों की संरचना गठित की गयी है। इन जिला स्तरीय कार्य प्रमंडलों के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-370 दिनांक 25.01.2012 द्वारा प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के साथ-साथ संविदा आधारित नियत वेतन पर चालक एवं अनुसेवक का पद भी सृजित किया गया है।

2. दिनांक 10.02.2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सुदृढीकरण हेतु सम्पन्न बैठक में निर्णय लिये गए कि 'चालक एवं अनुसेवक के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में कार्मिक उपलब्ध हैं। योजना एवं विकास विभाग में इनके लिए संविदा आधारित पद सृजित हैं। इन संविदा आधारित पदों को नियमित पद के रूप में सम्परिवर्तन कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग कार्रवाई करेगा।'

3. तदनुसार योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सृजित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंत्रण कार्य प्रमंडलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अधीन पूर्व से चालक

एवं अनुसेवक के सृजित पदों के प्रत्यापण के उपरांत निम्नरूपेण चालक एवं अनुसेवक पदों के पूर्व सृजित संविदा आधारित पदों को यथा निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तित एवं सृजित किया जाता है :-

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	चालक	57 (प्रति कार्य प्रमंडल एक-एक पद)	पी0वी0-1 ग्रेड पे-1900/-
2	अनुसेवक	171 (प्रति कार्य प्रमंडल तीन-तीन पद)	पी0वी0-1 ग्रेड पे-1800/-

4. उपर्युक्त पदों के सृजन के पश्चात उन पर होने वाला व्यय का वहन बजट शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष-0007-योजना तंत्र का सुदृढीकरण, मांग संख्या-35, विपत्र कोड- N-2053000940007 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. उपर्युक्त पदों के निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तन के प्रस्ताव पर दिनांक 13.07.2012 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

6. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 05.10.2012 की बैठक में मद संख्या 13 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय प्रकाश,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 571-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>